

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
कार्य-सूची
गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) - राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा ग्राम सोडाला, जयपुर के खसरा नम्बर-328 के संबंध में दवे आयोग की सिफारिश की पालना नहीं करने से जयपुर विकास प्राधिकरण को हुई करोड़ों की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II)- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा जयपुर के हर्षित सोनी हत्याकाण्ड के संबंध में पुलिस द्वारा अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने से जनता में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

1- श्री प्रकाश चन्द चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 वित्त, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वक्फ, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, सहकारिता, राजस्व, खनिज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयुर्वेद, परिवहन, शिक्षा, समाज कल्याण, उद्योग, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि विपणन, प्रारम्भिक शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा, इंदिरा गांधी नहर, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, भू-संरक्षण, कृषि, कार्मिक, सहायता व सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

2- डॉ. दयाराम परमार, सभापति, प्राक्कलन समिति "क", 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

(I) वन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2006-2007 के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "क", 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ; एवं

(II) सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

1- श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- (I) दातारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की डामर सड़कों का रिनोवेशन एवं सुदृढीकरण करने बाबत् ।
(II) दातारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् ।

2- श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जोधपुर (अनाज) मण्डी क्षेत्र देचु में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना एवं निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

3- श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, नगरपालिका एवं उपखण्ड देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	42 - उद्योग
2.	43 - खनिज
3.	9 - वन

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 मार्च, 2010